

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 2001 (ज्येष्ठ 12, 1923)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 2001 (JYAISTHA 12, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—अध्याय-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, प्रादेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	473	भाग II—अध्याय-3—उप अध्याय (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक प्रादेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के द्वितीय प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के अध्याय 3 या अध्याय 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ
भाग I—अध्याय-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	447	भाग II—अध्याय-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश	•
भाग I—अध्याय-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और प्रसांविधिक प्रादेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	437	भाग III—अध्याय-1—उच्च न्यायालयों, निपलक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार में सम्बद्ध और प्रचीनत्व तारीखों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3
भाग I—अध्याय-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	607	भाग III—अध्याय-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	2195
भाग II—अध्याय-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—अध्याय-3—मुख्य प्रायुक्तों के प्राधिकार के प्रचीन प्रथा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—अध्याय-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का द्वितीय भाग में प्राधिकृत पाठ	•	भाग III—अध्याय-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, प्रादेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3413
भाग II—अध्याय-2—विवेक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	•	भाग IV—नैर-परकारी व्यक्तियों और नैर-परकारी निकायों द्वारा जारी किए गये विज्ञापन और नोटिस	611
भाग II—अध्याय-3—उप अध्याय (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के प्रादेश और उपविधियां प्रावि भी शामिल हैं)	•	भाग V—अध्याय और द्वितीय भागों में अन्य अधिनियमों के प्रांशों को वर्णित किया गया सम्बद्ध	197
भाग II—अध्याय-3—उप अध्याय (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं	•		

*नोटिफिकेशन नहीं हुए।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	447	PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	437	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2195
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	607	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	611
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi in English of Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3413
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	•	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	197
PART II—SECTION 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	
PART II—SECTION 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्व नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2001

सं० यू० 13019/1/99-जी० पी०—इस मंत्रालय की दिनांक 24-03-2000 की अधिसूचना सं० यू० 13019/1/99-जी० पी० के अधिकरण में, राष्ट्रपति इस मंत्रालय की दिनांक 21-11-96 की अधिसूचना संख्या यू० 13019/1/96-ए० एन० एल० के पैरा 2 (ग) के अनुरूप जिला पंचायत, दादरा व नागर हवेली के निम्नलिखित पांच सदस्यों को दादरा व नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र की गृह मंत्री की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. श्री केसुभाई बी० पटेल
2. कु० चन्दनबेन एस० डेलकर
3. श्री काकडभाई ए० निकूलिया
4. श्री रमेशभाई जी० पटेल
5. श्री लाहनुभाई ए० तुम्बवा

हम्बु भूषण कर्ण
निवेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अप्रैल 2001

संकल्प

सं० ई आर जी-1/2001/23/9(1)—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने रेलवे स्टेशनों एवं गाड़ियों पर प्रदान की गई यात्री सुविधाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यात्री सुविधा समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है।

2. यह समिति श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य, प्रैम्डस होम अपार्टमेंट, म्यू पाटलीपुत्र कालोनी, पटना की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

3. समिति के अन्य सदस्य नीचे लिखे अनुसार होंगे :

1. श्री के० रमण पिल्लै,
कृष्ण कृपा, अलीनबारा,

वेङ्कारामुधु पी०जी०,
वेङ्कारामुधु, त्रिवेन्द्रम,
केरल-695607

2. श्री भवानीशंकर होटा,
भूतपूर्व संसद सदस्य,
बुद्धराजा हिस्स, पीओ बुद्धराजा,
जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा।
3. श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव,
भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
एम०आई०जी०-261, कंकड़ बाग,
पटना।
4. श्री० जनार्दन प्रसाद सिंह,
एटी एवं पीओ हरनौट,
जिला-नालंदा,
बिहार।
5. श्री लक्ष्मण झा,
पुरानी बाजार,
झाप्पा, जमुई,
बिहार।

6. श्रीमती कल्याणी शंकर,
303, सोमबिहार अपार्टमेंट्स,
आर०के० पुरम,
नई दिल्ली-110022

3.1 उप निवेशक (रेल वाचा अधिकरण), रेलवे बोर्ड इस समिति के सचिव होंगे।

4. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

- (क) सामान्य सफाई एवं पर्यावरण संबंधी स्थिति -
- (ख) पीने के पानी की व्यवस्था।
- (ग) सूचना के प्रचार के लिए यात्रियों को प्रदान की गई सुविधाएं, अर्थात् पूछताछ कार्यालय, जन उच्-
चोषणा प्रणाली, सूचक बोर्ड आदि।
- (घ) लाइट, पंखों एवं अन्य बिजली सुविधाओं की व्यवस्था।

- (इ) जनता की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालयों, स्नानघरों, विश्रामालयों एवं प्रतीक्षालयों की व्यवस्था एवं रख-रखाव ।
- (च) प्लेटफार्मों पर बेंचों, ठ्हील चेयरों, स्ट्रेचरों, सामान उठाने की ट्रालियों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था ।
- (छ) यात्रियों के लिए आरक्षण एवं बुकिंग ।
- (ज) सवारी डिब्बों एवं स्टेशन परिसरों में यात्रियों की सुरक्षा ।
- (झ) रेल राजस्व का हानि, और
- (ञ) यात्रियों के साथ शिष्टाचार सुनिश्चित करना ।

6. समिति के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष अथवा अगले आदेशों तक होगी ।

6. यातायात वाणिज्य निदेशालय नोटिस निदेशालय होगा जो समिति से समन्वय बनाए रखेगा और समिति की विभिन्न सिफारिशों को समय पर कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई करेगा ।

आर०के० सिंह
सचिव, रेलवे बोर्ड

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचनाएँ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ए०सी० बक्शी
संयुक्त सचिव (राजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

सं० ईआरबी I/2001/23/9(2) :- रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने खानपान/वेन्डिंग स्टॉलों/ट्रालियों/बुक स्टॉलों/पर्यटक सूचना केन्द्रों आदि के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए यात्री सेवा समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है ।

2. यह समिति श्री राज किशोर महतो, भूतपूर्व संसद सदस्य मोहल्ला चौरा गोला, धनबाद, झारखंड की अध्यक्षता में कार्य करेगी ।

3. समिति के अन्य सदस्य नीचे लिखे अनुसार होंगे :-

- (i) श्री मिथिलेश कुमार सिंह,
भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
एम०आई०जी०-286,
कंकड़बाग, पटना ।
- (ii) श्री जगदीश वैशंपति
बी-1/8, शास्त्राटरका हाउसिंग सोसायटी
4 बंगला, आर०पी०जी० के मनीष,
अंधेरी वेस्ट, मुम्बई ।

- (iii) श्री योगेश प्रसाद कुशवाहा,
सिविल कोर्ट, सोपल,
जिला सोपल, बिहार ।
- (iv) श्री लादाराम एच० नागवानी, 383,
मणि महल आनन्द भवन होटल के
पीछे, कालबा वेकी रोड, मुम्बई ।
- (v) श्री मनोहर पासवान, गांव एवं पोस्ट
नावाडीह, जिला बांदा, बिहार ।
- (vi) श्री रामबदन राय, मड़क नं० 15,
राजीव नगर, पटना, बिहार ।

4. कार्यवाहक निदेशक, (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड इस समिति के सचिव होंगे ।

5. इस यात्री सेवा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :-

(1) खानपान/वेन्डिंग स्टॉलों/ट्रालियों और अन्य सभी स्टॉलों जैसे बुक स्टॉलों तथा अन्य विविध स्टॉलों, पी०सी०ओ/आईएमडी/एस टी डी बूथों के आकार, डिजाइन तथा स्थान की समीक्षा करना और डिजाइन, आकार के साथ-साथ स्थान के मानकीकरण के लिए उपायों की सिफारिश करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे न केवल स्टेशन के सौन्दर्य के अनुरूप ही हों बल्कि कम से कम स्थान घेरे और यात्रियों की आवाजाही में कोई बाधा न उत्पन्न करें । वे विशिष्ट तौर पर इन सेवाओं में वृद्धि तथा इनके अस्तित्वशीलता के स्थापित होने के कारण महत्वपूर्ण स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ को कम करने के उपायों की सिफारिश करेंगे ।

(2) यह समिति स्टेशनों और गाड़ियों में अप्रचलित फेरी वालों/बैडरों की समस्याओं का अध्ययन करेगी, संवेदनशील स्थलों, खंडों और गाड़ियों की पहचान करेगी, इस समस्या को दूर करने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश करेगी ।

(iii) यह समिति इन विभिन्न स्टॉलों पर इस समिति ने अनुमत मर्चों की भी पुनरीक्षा करेगी और उनके मानकीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देगी । समिति उन मर्चों की सिफारिश करेगी जिन्हें स्वास्थ्य एवं साफ-मफाई के किसी जोखिम के बिना आम जनता को बेचने के लिए शामिल किया जा सकता है और जो जनता की रुचि एवं संवेदनशीलता के अनुरूप होंगी ।

(iv) यह समिति पर्यटक सूचना केन्द्रों और यात्रियों को परिवहन के अन्य माधनों और शहर के नक्शों आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी देने के लिए कोऑर्डेट स्थापित करने की आवश्यकता की जांच करेगी और कोऑर्डेट सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

(V) यह समिति क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द, ग्रामीण विकास आदि जैसी भावनाओं को प्रेरित करने वाले साहित्य की बिक्री के संबंध में भी जांच करेगी और उस पर अपनी विफारिशें देगी। यह समिति गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर बजाए जाने वाले संगीत और स्टेशनों आदि पर क्लोज मॉफिट टेली-विजन जैसे ध्वज माध्यम के द्वारा दिए गए संदेशों की भी जांच करेगी और उस पर अपनी विफारिशें देगी।

6. इस समिति की अधि दो वर्ष अथवा अगले अधि दो तक होगी।

7. ज्ञानपान एवं पर्यटन निदेशालय मोडल निदेशालय होगा जो समिति से समन्वय बनाए रखेगा और समिति की विभिन्न विफारिशों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करेगा।

आर० के० सिंह
मन्त्रि, रेलवे बोर्ड

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० सी० बक्शी
संयुक्त सचिव (राजपत्रित),
रेलवे बोर्ड

सं० ई आर बी-1/99/23/38(1)—भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 30-11-99 के संकल्प सं० ईआरबी-1/99/23/38(1) के तहत गठित यात्री सुविधा समिति को तत्काल प्रभाव से भंग करने का विनिश्चय किया गया है।

आर० के० सिंह
मन्त्रि, रेलवे बोर्ड

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० सी० बक्शी
संयुक्त सचिव (राजपत्रित), रेलवे बोर्ड

सं० ई आर बी-1/99/23/38(2)—भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 30-11-99 के संकल्प सं० ईआरबी-1/99/23/38(2) के तहत गठित यात्री सेवा समिति को तत्काल प्रभाव से भंग करने का विनिश्चय किया गया है।

आर० के० सिंह
मन्त्रि, रेलवे बोर्ड

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(ए० सी० बक्शी)
संयुक्त सचिव (राजपत्रित), रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th May 2001

No. U 13019/1/99-GP—In Supersession of this Ministry's notification No. U 13019/1/99—GP dated 24-03-2000, the President is pleased to appoint the following five members from the District Panchayat Dadra and Nagar Haveli, as members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli in terms of Para 2 (C) of this Ministry's notification No. U 13019/1/96—ANL dated 21-11-96 :—

1. Shri Keshubhai V. Patel
2. Kum. Chandanben S. Dalkar
3. Shri Kakadbhai A. Nikuliy
4. Shri Rameshbhai B. Patel
5. Shri Lahubhai A. Tambda

I. B. KARN, Director

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 12th April 2001

Resolutions

No. ERB-I/2001/23/9(1)—The Ministry of Railways (Railway Board) have decided to reconstitute Passenger Amenities Committee at the national level to check the passenger amenities provided at railway stations and on trains.

2. The Committee will function under the chairmanship of Shri Bash'sht Narain Singh, Ex-Member of Parliament, Friends Home Apartments, New Patliputra Colony, Patna.

3. The other members of the Committee will be as under :—

- (i) Shri K. Raman Pillai,
Krishna Kripa, Aluthara,
Venjaramoodu PO,
Venjaramoodu,
Trivandrum, Kerala-695607.

- ii) **Shri Bhavani Shankar Hota**
Ex-MP
Budh Raja Hills, PO Budh Raja,
Distt. Sambalpur, Orissa.
- iii) **Shri Jagannath Prasad Yadav,**
Ex-MLA,
MIG-261, Kankar Bagh, Patna.
- iv) **Prof. Janardan Prasad Singh**
AT&PO Harnaut,
Distt. Nalanda, Bihar.
- v) **Shri Laxman Jha**
Purani Bazar,
Jhajha, Jamui, Bihar.
- vi) **Smt. Kalyani Shankar**
303 Somvihar Apartment,
RK Puram,
New Delhi.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. C. BAKSHI
Joint Secretary (G),
Railway Board

3.1 Deputy Director (RCT), Railway Board, will be the Secretary of the Committee.

4. The terms of reference of the Committee are as under :—

- a) General cleanliness and environmental condition.
 - b) Drinking water arrangements.
 - c) Facilities provided for dissemination of information to the passengers, like enquiry offices, public address system, indicator boards etc.
 - d) Provision of lights, fans and other electrical amenities.
 - e) Provisions and maintenance of public conveniences like public lavatories, bathrooms, retiring rooms and waiting halls.
 - f) Provisions of such conveniences as benches on platforms, wheel chairs, stretchers, luggage trolleys, etc.
 - g) Reservation and booking in carriages and at station premises.
 - h) Security of passengers in carriages and at station premises.
 - i) Losses in railway revenues and
 - j) Ensuring courtesy to passengers.
5. The tenure of the Committee will be for a period of two years or till further orders.
6. The Traffic Commercial Directorate will be the nodal Directorate interacting with the Committee and processing its various recommendations for timely implementation.

R. K. SINGH
Secretary, Railway Board

No. ERB-I/2001/23/9(2)—The Ministry of Railways (Railway Board) have decided to reconstitute Passenger Services Committee to look into the various aspects of catering/vending stalls/trolleys/book stalls/tourist information centres etc.

2. The Committee will function under the chairmanship of Shri Raj Kishore Mahto, Ex-MP, Mohalla Chira Gola, Dhanbad, Jharkhand.

3. The other members of the Committee will be as under :

- i) **Shri Mithilesh Kumar Singh**
Ex-MLA,
MIG-286, Kankar Bagh,
Patna.
- ii) **Shri Jagdish Deshpande,**
B-1/8, Shatataraka Housing Society,
4 Bunglow, Near RPO,
Andheri West, Mumbai.
- iii) **Shri Yogesh Prasad Kushwaha,**
Civil Court,
Supaul, Distt. Supaul,
Bihar.
- iv) **Shri Ladharam H. Nagwani,**
353, Mani Mahal,
Oppt. Anand Bhavan Hotel,
Kalba Devi Road,
Mumbai-2.
- v) **Shri Manohar Paswan,**
Village & PO Nawadih,
Distt. Wada, Bihar.
- vi) **Shri Ram Badhan Rai,**
Road No. 15, Rajiv Nagar,
Patna, Bihar.

4. Executive Director (Tourism & Catering) Railway Board will be the Secretary of the Committee.

5. The terms of reference of the Passenger Services Committee will be as under :-

- a) To review the size, design and location of catering/vending stalls/trolleys and all other stalls like book stalls and other miscellaneous stalls/PCO/ISD/STD booths and recommend measures for standardisation of the design, size as well as the location so as to ensure that they not only

match with the aesthetics of the station, but also take up minimum space and do not create hindrance to movement and circulation of passengers. They would specifically recommend steps to reduce congestion at important stations and platforms caused due to proliferation of such services and their installation in a haphazard manner.

b) The committee would study the problems of unauthorised hawking/vending at stations and in trains, identify vulnerable locations, sections and trains, recommend concrete measures to eliminate this menace.

c) The Committee would also review the items which are presently permitted to be sold at these various stalls and suggest their standardisation. They would recommend items which would be included for sale to public without any risk to health and hygiene and in no way offend public taste and sensitivity.

d) The Committee would examine and recommend on the requirement for setting up of tourist information booths as well as kiosks for guiding travelling public regarding availability of other modes of transport, city maps etc.

e) The Committee would examine and recommend regarding sale of books and publications depending on the regional and territorial requirements as also sale of literature for permitting themes of national integration, social justice, communal harmony, rural development etc. The committee would also examine the kind of music to be played in trains at railway stations as also the message given through the visual media like closed Circuit Televisions (CCTVs) at stations etc.

6. The tenure of the Committee will be for a period of 2 years or till further orders.

7. The Tourism and Catering Directorate will be the nodal directorate interacting with the Committee

and processing its various recommendations for timely implementation.

R. K. Singh,
Secretary, Railway Board

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. C. Bakshi,
Joint Secretary (G)/Rly. Bd.

No. ERB-I/99/23/38 (1)—The Government of India have decided to dissolve with immediate effect the Passenger Amenities Committee constituted under Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution No. ERB-I/99/22/38 (1) dated 30-11-1999.

R. K. Singh
Secretary, Railway Board

ORDER

Ordered that the Resolution be Published in the Gazette of India for general Information.

A. C. Bakshi,
Joint Secretary (G),
Railway Board

No. ERB-I/99/23/38 (2)—The Government of India have decided to dissolve with immediate effect the Passenger Services Committee constituted under Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution No. ERB-I/99/23/38 (2) dated 30-11-1999.

R. K. Singh,
Secretary, Railway Board.

ORDER

Ordered that the Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

A. C. Bakshi,
Joint Secretary (G), Railway Board

